



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]  
No. 198]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2012/माघ 14, 1933  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2012/MAGHA 14, 1933

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

**का.आ. 223(अ).—**केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में विरमगांम से कांडला तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, श्री एम. जी. परमार, सक्षम प्राधिकारी (गुजरात), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग), प्लॉट नं. 10, पटेल सोसायटी, आई. ओ. सी. एल. कॉलोनी के पास, विरमगांम, जिला अहमदाबाद (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : कच्छ

राज्य : गुजरात

तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
भुवाक	शिकारपूर	908/P2	0	46	08
		114/2	0	01	00
	वांधिया	712/6	0	01	50
	छडवाडा	1154/33	0	32	40

[फा. सं. आर-25011/6/2009-ओ.आर.-1]

लाल छन्दमा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2012

**S.O. 223 (E)** .— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Products from Viramgam to Kandla in the State of Gujarat, a branch pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Sri. M.G. Parmar, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, at office Plot No. 10, Patel Society, Near I.O.C.L. Colony, Viramgam, District Ahmedabad-382150 (Gujarat).

## SCHEDULE

District : Kutch

State : Gujarat

Name of Tahsil	Name of village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5	6
Bhachau	Shikarpur	908/P2	0	46	08
		114/2	0	01	00
	Vandhiya	712/6	0	01	50
	Chhadwada	1154/33	0	32	40

[F.No. R-25011/6/2009-O.R.-1]

LAL CHHANDAMA, Under Secy.